



पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
Power Grid Corporation of India Limited
सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी
Central Public Information Officer under the RTI Act, 2005
केन्द्रीय कार्यालय, 'सौदामिनी', प्लॉट नं.2, सेक्टर-29, गुडगांव, हरियाणा-122001
Corporate Centre, 'Saudamini', Plot No. 2, Sector-29, Gurgaon, Haryana-122001



CIN : L40101DL1989GOI038121

दिनांक: 28 March, 2023

PGCIL/R/E/23/00101 & 00107

Shri Asit Kumar Dash,
Flat no. 203 ganga apartment near gurudwara kabir ,Raj Nagar Part-II palam colony, SOUTH WEST
DELHI-110077

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत जानकारी ।

महोदय / महोदया,


कृपया आर.टी.आई. अधिनियम, 2005 के तहत दिनांक 20 March, 2023 को प्राप्त अपने आर.टी.आई. अनुरोध पत्रों का संदर्भ लें ।

उपरोक्त पत्रोंमें वांछित जानकारी अनुलग्नक-1 में संलग्न है ।

यदि आप केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी के उत्तर से संतुष्ट न हों तो, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी के उत्तर की प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर पहले अपील प्राधिकारी के सम्मुख अपील की जा सकती है। आर.टी.आई अधिनियम, 2005 के तहत केन्द्रीय कार्यालय, गुडगांव में अपील प्राधिकारी का विवरण निम्नानुसार है:

श्री बी.अनंत शर्मा
कार्यपालक निदेशक (सी. एस.) एवं अपील प्राधिकारी
केन्द्रीय कार्यालय, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड,
सौदामिनी, प्लॉट नंबर-2, सेक्टर-29, गुडगांव-122001, हरियाणा।
ईमेल आईडी: appellate.cc@powergrid.co.in
फोन नंबर: 0124-2571994

धन्यवाद,

भवदीय,

28/03/23
(ए. जगन्नाथ राव)

मुख्य महाप्रबंधक (केन्द्रीय आयोजना) एवं
केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी
Email ID: cpio.cc@powergrid.co.in

अनुलग्नक-1

Sub: Reply to RTI Requests of Shri Asit Kumar Dash, Raj Nagar-II, Palam Colony, South West Delhi

(RTI Request No. PGCIL/R/E/00101 & 00107)

Sl. No.	Information sought:	POWERGRID's Reply:
1.	I joined as ET(EE) in PGCIL and my employee no. was 60004149. Kindly provide the copy of affidavit (surety bond) submitted by me at the time of joining as ET(EE) on Feb,2020 of Sh. Asit Kumar Dash.	Copy of Service Bond is enclosed herewith at ANNEXURE-A.
2.	Kindly provide the copy of office order notifying my joining as ET(EE). Asit Kumar Dash Emp. NO. 60004149	Copy of Joining Order dated 05.02.2020 is enclosed herewith at ANNEXURE-B.

Asit-c
28/03/23

AND WHEREAS in terms of the clause 4 of the terms and conditions of the said offer of appointment, the Trainee-employee and his Surety are required to execute a Service Agreement Bond on non-judicial stamp paper in favour of the Company undertaking to complete the training and thereafter to serve the Company for a period of three years failing which the Trainee-employee and the Surety shall be jointly and severally bound unto the Company in the sum of Rs. 5,00,000/- (Rupees Five lakhs only) plus applicable taxes in terms of this Bond.

NOW THEREFORE THIS BOND WITNESSETH AS UNDER:-

1. That the Trainee-employee shall undergo the training provided by the Company for a period of one year, which may be extended at the discretion of the company during which period the Trainee-employee shall diligently, faithfully and to the best of his/her ability undergo the training and conduct and behave himself/herself honestly, orderly and obediently towards his/her superiors and management of the Company and will devote his/her whole time to the duties assigned to him/her by the Company and will not engage directly or indirectly in any trade, business or occupation till the end of the period for which he/she is bound to serve the Company.
2. That the Trainee-employee shall not leave the Company during the prescribed training period of one year which may be extended at the discretion of the Company or during the period of service of the Company for the stipulated period of three years after completion of the training, except for reasons of continued serious ill-health/incapacitating him/her to work provided that such ill-health has not been brought about by his/her own neglect, carelessness, design or misconduct about which the decision of the Company shall be conclusive and binding.
3. That the Trainee-employee shall promptly obey his/her superiors and comply with their orders, instructions issued from time to time and at all times and in all respects shall faithfully observe all the Rules and Regulations of the Company.
4. That the Trainee-employee shall observe secrecy and/in no way divulge or disclose to any person or persons whatsoever, the secrets entrusted to him/her or coming to his/her knowledge in the course of his/her training and service with the Company either in relation to its work, business or its customers.
5. That the Trainee-employee shall not commit or cause to be committed any waste, damage or other injury to the property and/or goods of the Company nor shall he/she lend any such property or goods to any person without the permission of the management of the Company.
6. That the Trainee-employee shall not participate in political activities nor shall become a member of political organizations.
7. That if the Trainee-employee fails to complete his/her training successfully and/or serve the company for the stipulated period of three years thereafter, the trainee-employee and the Surety undertaking that they shall jointly and severally compensate the Company for all the expenses incurred by it on account of and in connection with his/her training.
The expenditure incurred by the Company on account of and in connection with the training

(Signature)
Surety



And Kures iak
(Signature)
Trainee Employee

12. That for matters not provided for in this service agreement bond, the Trainee-employee shall be governed by the offer of appointment and Rules and Regulations of the Company in force from time to time.

13. That the Company, however, may at its discretion alter interrupt or terminate the training in the event there are adverse reports regarding the progress of training or health of the Trainee-employee without thereby incurring any liability to the Trainee-employee.

14. That the above Trainee-employee and Surety further agree that if the trainee-employee leaves the service of the Company after the expiry of the stipulated period of training and absorption thereafter his/her and the Surety will not only be liable to reimburse to the Company the expenses incurred by its on account of and in connection with the training as detailed in Para 7 above, but will also be required to give one months advance notice while on probation and three months advance notice after completion of probation period or pay further amount equivalent to one month's or three months salary, as the case may be, last drawn in lieu of notice, in terms of the offer of appointment.


15. That in the event of insolvency, lunacy or death of the Surety, the above bounden Trainee-employee undertakes to intimate the Company of the event with satisfactory proof thereof within 15 days of the occurrence, and shall execute a fresh bond with a fresh surety or sureties as may be acceptable to the Company without prejudice to the rights of the Company to proceed against the original Surety or his estate.

16. That in case the Trainee-employee does not comply with the terms and conditions contained in the offer of appointment, the Rules and Regulations of the Company and the covenants contained in this Bond, the Trainee-employee and his Surety undertake that they shall jointly and severally pay to the Company on demand without any demur the amount demanded by the Company towards the expenses incurred by it on account of and in connection with the training of the Trainee-employee including salary TA/DA, passage fare, cost of supervision overhead charges, direct and indirect expenses incurred by the Company, provided that the total amount recoverable on account of and in connection with the training shall not exceed Rs. 5,00,000/- (Rupees Five Lakhs only) plus applicable taxes, plus an amount equivalent to three months salary in lieu of notice period, if any, as per offer of appointment applicable and any other amount that may be due to the Company on account of other payments or on other accounts, if any.


AND UPON making such payment and satisfaction of this Clause and above written obligation of the bond shall be void otherwise it shall remain in full force and virtue

PROVIDED FURTHER that the liability of the said ASIT KUMAR DASH
(Trainee-employee) and RABHA MOHAN DASH (Surety) hereunder shall not be impaired or discharged by reasons of time being granted to the Trainee-employee and/or the Surety for fulfilling their obligations under this bond or by any forbearance, act of omission or commission on the part of the Company or any person(s) authorized by it (whether with or without the consent or knowledge of the said Surety), nor shall it be necessary for the Company to sue the Trainee-employee before suing the Surety for recovery of amount due hereunder.

17. All suits in respect of any dispute arising out of this service agreement bond shall be instituted in the courts at Delhi only.


(Signature)
Surety




(Signature)
Trainee Employee

पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
(केन्द्रीय कार्यालय - मा.सं. विभाग)

संदर्भ संख्या: के.का./मा.सं./भर्ती/इ.टी.-24 वां बैच/फैज-2(II)

दिनांक: 05.02.2020

नियुक्ति आदेश संख्या: 04/2020

निम्नलिखित व्यक्तियों को उनके नाम के समक्ष दर्शाये गये दिनांक से कार्यपालक प्रशिक्षु के पद पर इ 3 स्तर पर ₹ 60,000 - 1,80,000/- वेतनमान पर नियुक्त किया जाता है। इनका मूल वेतन ₹ 60,000 /- प्रति माह होगा।

इलेक्ट्रीकल / ELECTRICAL

क्र.सं.	नाम (श्री / सुश्री)	जन्म तिथि	नियुक्ति दिनांक	कर्मचारी संख्या
1	सुकीर्ति कुमारी / Sukeerti Kumari	13-Feb-1995	29.01.2020	60004147
2	किष्टिपति सूर्य प्रकाश रेड्डी / Kistipati Surya Prakash Reddy	7-Jul-1995	31.01.2020	60004148
3	असित कुमार दास / Asit Kumar Dash	22-Sep-1994	03.02.2020	60004149
4	विकास / Vikas	18-Sep-1997	04.02.2020	60004150

उपरोक्त कार्यपालक प्रशिक्षु एक वर्ष की अवधि के लिए प्रशिक्षण पर रहेंगे जोकि प्रबंधन के स्वेच्छा निर्णय पर बढ़ाई भी जा सकती है। प्रशिक्षण की अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर इन्हें इ 3 स्तर पर ₹ 60,000 - 1,80,000/- के वेतनमान में मूल वेतन ₹ 61,800 /- पर पदस्थापित किया जाएगा।

कार्यपालक प्रशिक्षुओं की नियुक्ति के नियम व शर्तें उनके नियुक्ति पत्र तथा सेवा अनुबंध बांड (Service Agreement Bond) के अनुरूप होगी।

सभी प्रशिक्षुओं की तैनाती केन्द्रीय मानव संसाधन विकास विभाग में प्रशिक्षण हेतु की जाती है।

यह सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

(रजत प्रसाद)

उप महाप्रबंधक (मा.सं.)

वितरण:

1. संबंधित कार्मिक
2. कार्यपालक निदेशक (मा.सं.वि) / (मा.सं. एवं तिथि) -केन्द्रीय कार्यालय
3. मुख्य महाप्रबंधक-प्रभारी (मा.सं.- प्रशासन)- केन्द्रीय कार्यालय
4. वरिष्ठ महाप्रबंधक : मा.सं.- भर्ती एवं आई.इ./भूल्याकन/ स्थापना एवं नीति /वित्त- स्थापना / आई.टी., केन्द्रीय कार्यालय
5. सचिव - पावरग्रिड ईपीएफ / ईजीएफ / पेंशन ट्रस्ट
6. कार्यालय आदेश फाईल/ व्यक्तिगत फाईल/ विषय फाईल